



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 चैत्र 1931 (श0)
(सं0 पटना 91) पटना, बुधवार, 1 अप्रील 2009

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

अधिसूचना
10 मार्च 2009

सं0 मं0मं0 01/आर.-02/2007/364—भारत संविधान के अनुच्छेद-166 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 03, दिनांक 16 जनवरी, 1979 द्वारा बनाई गई तथा अद्यतन संशोधित बिहार कार्यपालिका नियमावली में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :-

- कार्यपालिका नियमावली के नियम 32 (क) के अंत में निम्नांकित परन्तुक जोड़ा जाएगा :-
“परन्तु लोक सभा अथवा विधान-सभा के आम चुनाव की घोषणा के बाद और चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न होने तक की अवधि के दौरान प्रमंडलों एवं जिलों में पदस्थापित पदाधिकारियों के भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निदेशित स्थानान्तरण एवं पदस्थापन के ऐसे मामलों में जिनमें मुख्यमंत्री का आदेश अन्यथा अपेक्षित है, मुख्यमंत्री स्वविवेक से अपनी शक्ति प्रत्यायोजित कर सकेंगे।”
- चतुर्थ अनुसूची की कंडिका (ख) (5) के प्रावधान भी उपर्युक्त सीमा तक संशोधित समझे जाएँगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
गिरीश शंकर,
सरकार के प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 91-571+1000-डी0टी0पी0।